



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1982/श्रावण 26, 1904

No. 367] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1982/SRAVANA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1982

क्र० आ० 599(अ).—भूमिगत रेल (संक्रमण निर्माण) अधिनियम,
1978 की धारा 21(1)(ख) के अंतर्गत अधिसूचनाएं

यस: केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक है कि कलकत्ता में भूमिगत (मेट्रो) रेलवे के निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुसूची में अंकित सभी इमारतों का, जो भूमि संरक्षण के ऊपर अवकाश उसके किसी भी तरफ 20 मीटर के भीतर स्थित हों, अस्थायी रूप से खाली कराने का निदेश विधा जाय, अतः एतद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि नीचे दी गयी अनुसूची में निर्दिष्ट परिसरों में रहने वाले व्यक्ति अपने परिवार और आश्रितों सहित जो इन परिसरों में रह रहे हों, साधन यदि कोई चल संश्लिषण पशु, जो उनकी अभिरक्षा, नियंत्रण या कब्जे में हों तो उसके सहित, उक्त इमारत छोड़नी कर दें।

प्रभावित व्यक्तियों को ऐसा अस्थायी वैकल्पिक स्थान, जिसे केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे, निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था एक ऐसी धन-राशि का, जो सरकार की राय में वैकल्पिक स्थान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को कार्यकारी इंजीनियर, सीएस-4, भूमिगत रेलवे से जो इस प्रयोजन के लिए महाप्रबन्धक भूमिगत रेलवे के प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं, सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर यह निष्क्रमण कर देना चाहिए --

(क) भूमिगत रेलवे कलकत्ता से अस्थायी तौर पर कोई निर्दिष्ट अस्थायी वैकल्पिक स्थान निशुल्क ग्रहण करने के लिए, व्यवस्था

(ख) अस्थायी वैकल्पिक स्थान खरीबने के लिए भूमिगत रेलवे कलकत्ता से निर्दिष्ट धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार की राय में पर्याप्त हो, प्राप्त करने के लिए अपने धन को पेश करने के लिए।

अनुसूची

इमारत	परिसर सं०	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	निर्देशन
1	2	3	4
27.	108, बेलगछियां रोड, कलकत्ता	1 सरमिह प्रसाद नन्दो 2 गोबाप के कमरे	प्रत्येक मामले में निष्क्रमण (खाली करने) की आवश्यक तारीख से लगभग

1	2	3	4
	3. करुणाकर	6 महीने की अवधि	
	परिदा (सरकार)	के लिए सभी चल	
	4. नरेन्द्रनाथ	संरक्षित और/अथवा	
	पुनर्निर्माण	सभी पशुओं सहित	
	वस्तु का कार्यालय	तमो व्यक्तियों का	
	साक्षीवार	ऊपर बताये अनुसार	
	(i) अशोक	निष्क्रमण	
	जीवन वास		
	(ii) निताईचन्द्र		
	दलाल		
	(iii) मृगाजिनो		
	दत्त		

[फा० सं० 81/एम०टो०पो०सी०एल०ए/108]

हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड
पदेन संयुक्त सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1982

S.O. 599(E).—Notifications under Section 21(1)(b) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

Whereas the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to direct temporary evacuation of all buildings described in the schedule below, which are above or within 20 metres on either side of the metro alignment, it is hereby directed that the persons living in the premises mentioned in the schedule below along with their family and dependents, as residing in these premises, together with any moveable property or animal that may be in their custody, control, or possession shall evacuate the said building.

Arrangement has been made to provide the affected persons with such temporary alternative accommodation, free of cost, as considered suitable by the Central Government or to

pay an amount which in its opinion is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

Such evacuation shall be done by every affected person within thirty days from the date of receipt of intimation sent to him by the Executive Engineer CS-4, Metro Railway, who is the authorised representative of the General Manager, Metro Railway for this purpose—

- for taking over temporarily a specific temporary alternative accommodation free of cost from the Metro Railway, Calcutta, or
- for presenting himself to receive from the Metro Railway, Calcutta, a specific amount, which in the opinion of Central Government is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

SCHEDULE

Building Premises No.	Name of the affected persons	Directions
1	2	3
27. 108, Belgachia Road, Calcutta	1. Narasingh Prasad Nandy. 2. Godown Rooms 3. Karunakar Parida (Sarkar) 4. Office of Narendra Nath Purnendu Bhusan Dutta. Partners (i) Asoke Jiban Das (ii) Netai Chandra Dalal (iii) Mrinalini Dutta.	Evacuation of all persons together with any movable property and/or any animal as described above for a period of six months approximately from the actual date of evacuation in each individual case.

(Case No. 81/MTP/C/LA/108)

HIMMAT SINGH, Secy. and
Ex-Officio Jt. Secy. to the Govt. of India
Railway Board